

August 27, 2021

Asst. Vice President, Listing Deptt.,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding the issue of duplicate share certificates in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

Kindly note that duplicate share certificates will be issued to the concerned shareholders in case no objection is received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Limited



(Dhiraj Kapoor)
General Manager - Secretarial

Encl.: As above

1st Floor, Videocon Tower, Jhandewalan
Ph: 011-66083056, 66084896

NOTICE

Enforcement of Security Interest Act, 2002 and Interest (Enforcement) Rules, 2002. The Bank mentioned against their name calling upon them to repay the amount, notice is hereby given to property described herein below in exercise of Rules on the dates mentioned against the name

with the property. Any dealing with the property will be void with future interest and charges thereon.

Property	Amount O/s as mentioned in the notice u/s 13(2)
S Greens, Gurgaon, Haryana	Rs. 6,73,24,953/- (Rupees Six Crore Seventy Three Lakh twenty Four Thousand Nine Hundred Fifty Three Only) as on 10.03.2021
Plot No. 18, Sector-151, Gurgaon, Haryana	Rs. 74,39,487/- (Rupees Seventy Four Lakh Thirty Nine Thousand Four Hundred Eighty Seven Only) as on 10.03.2021
Plot No. 106, Sector-151, Gurgaon, Haryana	Rs. 86,76,033/- (Rupees Eighty Six Lakh Seventy Six Thousand Thirty Three Only) as on 10.03.2021
Plot No. 106, Sector-151, Gurgaon, Haryana	FRs. 84,26,051/- (Rupees Eighty Four Lacs Twenty Six Thousand Fifty One Only) as on 10.04.2021
Plot No. 106, Sector-151, Gurgaon, Haryana	Rs. 81,55,901/- (Rupees Eighty One Lakh Fifty Five Thousand Nine Hundred One Only) as on 10.03.2021

Sd./- Authorised Officer, IDBI Bank Ltd.

NOTICE

011-641 659,
nationalfitting@gmail.com

GENERAL MEETING

Members of the Company will be in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report are sent to all the shareholders on 26.08.2021 whose email IDs are registered with Company/Depositories in accordance with the SEBI Circular dated May 12, 2020.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from 11.09.2021 to 20.09.2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through National Securities Depository Limited (NSDL). Members may access the same at www.evoting.nsdl.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of NSDL (remote e-voting). The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by NSDL. All the members are informed that:

- (i) The business as set forth in the Notice of the 41st AGM may be transacted through voting by electronic means.
- (ii) The remote e-voting shall commence at 17.09.2021 at 9.00 a.m.
- (iii) The remote e-voting shall end on 19.09.2021 at 5.00 p.m.
- (iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 10.09.2021.
- (v) Any person who acquires shares of the company and become member of the Company after dispatch of the notice of the AGM may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- (vi) Members may note that the facility for remote e-voting module will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting or otherwise are eligible to vote through e-voting system at AGM. The members who have casted their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast the vote again.
- (vii) Members who have not registered their email address are requested to register their email address with the Depositories/ Company/Registrar and Share transfer agent i.e. Purva Share Registry (India) Private Limited to receive copies of Annual Report 2020-21 along with notice of 41st Annual General Meeting.
- (viii) The Notice of AGM is available on the Company's website www.spaceageproducts.co.in and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com.
- (ix) In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual for Shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Mohit Rath, Director, at B-702, Neelkanth Business Park, Near Vidyavihar Bus Depot, Vidyavihar (West) Mumbai City-400086, Maharashtra, email id: mr@vintagecoffee.in, Ph: 9871584916.

Company after dispatch of the notice and login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in

Members attending the meeting through remote e-voting shall be able to exercise their

right to vote through remote e-voting

Members for physical share holders they have to provide their e-mail ids:

Name of shareholder, scanned copy of PAN card, AADHAR (self attested copy), DPID + CLID or 16 digit beneficiary

Hero MotoCorp Limited
Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070
CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-46044220
Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarialho@heromotocorp.com
Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ("Company") are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face Value Rs.2/-) in their favour:

Folio No.	Shareholders Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares
HML0038920	LAURIANA FERNANDES	Rs.10/-	20503280-20503329	330154	50
	MANUEL FERNANDES		20503330-20503341	330155	12
HML0163649	SANTOSH GOEL	Rs.2/-	159789831-159790580	531691	750
HML0136252	J M MAGO	Rs.10/-	2166516-2166565	43340	50
			2969566-2969615	59401	50

Any person having objections to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd.
Sd/-
Neerja Sharma
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Place : New Delhi
Date : 26.08.2021

VINTAGE COFFEE AND BEVERAGES LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS SPACEAGE PRODUCTS LIMITED)
B-702, NEELKANTH BUSINESS PARK, NEAR VIDYAVIHAR BUS DEPOT, VIDYAVIHAR (WEST) MUMBAI CITY-400086, MAHARASHTRA
CIN: L15100MH1980PLC267131

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the members of Vintage Coffee and Beverages Limited will be held on Monday, the 20th day of September, 2021 at 10.45 a.m. ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In view of the continuing Covid 19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report are sent to all the shareholders on 26.08.2021 whose email IDs are registered with Company/Depositories in accordance with the SEBI Circular dated May 12, 2020.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from 11.09.2021 to 20.09.2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through National Securities Depository Limited (NSDL). Members may access the same at www.evoting.nsdl.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of NSDL (remote e-voting). The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by NSDL. All the members are informed that:

- (i) The business as set forth in the Notice of the 41st AGM may be transacted through voting by electronic means.
- (ii) The remote e-voting shall commence at 17.09.2021 at 9.00 a.m.
- (iii) The remote e-voting shall end on 19.09.2021 at 5.00 p.m.
- (iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 10.09.2021.
- (v) Any person who acquires shares of the company and become member of the Company after dispatch of the notice of the AGM may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- (vi) Members may note that the facility for remote e-voting module will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting or otherwise are eligible to vote through e-voting system at AGM. The members who have casted their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast the vote again.
- (vii) Members who have not registered their email address are requested to register their email address with the Depositories/ Company/Registrar and Share transfer agent i.e. Purva Share Registry (India) Private Limited to receive copies of Annual Report 2020-21 along with notice of 41st Annual General Meeting.
- (viii) The Notice of AGM is available on the Company's website www.spaceageproducts.co.in and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com.
- (ix) In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual for Shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Mohit Rath, Director, at B-702, Neelkanth Business Park, Near Vidyavihar Bus Depot, Vidyavihar (West) Mumbai City-400086, Maharashtra, email id: mr@vintagecoffee.in, Ph: 9871584916.

For and on behalf of the Board
Vintage Coffee and Beverages Limited
(Previously Known as Spaceage Products Limited)
Sd/-
Balakrishna Tati
Managing Director
DIN: 02181095

Place: Mumbai
Date: 26.08.2021

CAPITAL INDIA

A.V.THOMAS AND COMPANY LIMITED
CIN: U51109KL1935PLC000024
Registered Office: W-21/674, Beach Road, Alappuzha 688012
E-mail: avt.alapuzha@gmail.com, Website: www.avthomas.in
Tel: 0477-2243624, 2243625

NOTICE

In order to send the notice of the 86th Annual General Meeting, Annual Report and Other communications to the shareholders in electronic form, we request the shareholders of the Company, who have not yet registered / updated their e-mail address, to register / update their e-mail address by sending a mail to the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s Cameo Corporate Services Ltd., email id: investor@cameoindia.com or to the Company's e-mail id: avt.alapuzha@gmail.com or with their Depository Participant or send their consent to M/s Cameo Corporate Services Ltd., Subramanian Building, No. 1, Club House Road, Chennai- 600 002 along with their folio number / DPID/CLID and valid e-mail id for registration /up gradation.

The Shareholders are also required to update their Bank details with Depository Participant in case their securities are held in demat mode and Shareholders holding securities in Physical form are requested to send a request for updating their bank details, to the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s Cameo Corporate Services Ltd to avoid delay in receiving the dividend.

For A V Thomas and Company Ltd.,
Ajit Thomas
Executive Chairman

Place : Chennai
Date : 25-08-2021

TITAN SECURITIES LIMITED
CIN: L67190DL1993PLC052050
Regd. Office: A-2/3, Third Floor, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi-110033
Ph: 011-27674181, 27355742 | Fax: +91-11-47619811,
Email: titan.securities@yahoo.com | Website: www.titansecuritieslimited.com

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING FACILITY AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Company will be held on **Friday, 24th September, 2021 at 11:00 A.M. IST** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, in view of the continuing Covid 19 pandemic and in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, applicable Rules and Regulations read with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue. The Venue of AGM shall be deemed to be Registered Office of Company.

In terms of aforesaid circulars of MCA and SEBI, the Notice of the 29th AGM as part of the Annual Report for the year 2021 including the Audited Financial Statements and other mandatory attachments for the year ended 31st March, 2021 ("Annual Report") has been sent by email on 26th August, 2021 to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar & Share Transfer Agent. The Annual Report containing AGM notice is also available on the website of company at www.titansecuritieslimited.com and also at website of Bombay Stock Exchange Limited i.e. www.bseindia.com. The documents relating to item of business to be transacted at AGM shall be available for inspection by the members before or during the AGM.

In compliance with Companies Act, 2013 read with applicable rules and regulations, members are provided facility of remote e-voting through electronic means and may cast vote on the resolutions of AGM through remote e voting using CDSL system through its website www.evotingindia.com. The remote e-Voting shall commence on **Tuesday, 21st September, 2021 at 10:00 A.M.** and shall end on **Thursday, 23rd September, 2021 at 5:00 P.M.** The e voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The cut-off date for determining the eligibility to vote is **17th September, 2021**. Any person, who becomes Member of the Company before the cut-off date i.e. **17th September, 2021**, may give relevant information about acquiring shares to obtain the login ID and password by sending a request at beetalrta@gmail.com.

As the AGM is held through VC/OAVM, the members who were eligible and have not cast their vote earlier shall be entitled to vote during the AGM. Members who have already cast vote shall be entitled to attend the AGM but not entitled to vote again on the Resolutions of AGM. The voting rights shall be equal to number of shares held by each shareholder in the paid up capital of company. The detailed instructions for remote e voting and e voting at AGM have been given in the notice of AGM.

In case of any queries or issues, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact **Mr. Rakesh Dalvi** (022-23058542), Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

Those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address with the Company or Registrar and Transfer Agents of the Company, BEETAL Financial & Computer Services Private Limited at beetalrta@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **18.09.2021 (Saturday) to 24.09.2021 (Friday) (both days inclusive)** for AGM and determining the entitlement of the Members to the Final dividend for 2021.

For Titan Securities Limited
Sd/-
Akansha Sharma
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place: Delhi
Date: 25/08/2021

HOVS
HOV Services Limited
CIN: L72200PN1989PLC014448
Reg. Office: 3rd Floor, Sharda Arcade, Pune Satara Road, Pune-411037, Maharashtra, India
Tel: 91 20 24221460, Fax: 91 20 24221470; investor.relations@hovsindia.com | www.hovsindia.com

NOTICE FOR THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO VISUALS MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("33rd AGM") of the Company will be held on Wednesday, September 22, 2021 at 10:00 A.M. IST through

